



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 माघ 1939 (श0)

(सं० पटना 129) पटना, शुक्रवार, 9 फरवरी 2018

सं० 08/आरोप-01-61/2016-1013/सां०प्र०
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

19 जनवरी 2018

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री निरोज कुमार भगत, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-779/11 के विरुद्ध जिला परिवहन पदाधिकारी, बेतिया के पदस्थापन काल (दिनांक 21.01.2016 से दिनांक 03.07.2017) में राजस्व क्षति का आरोप महालेखाकार, बिहार, पटना के पत्र सं०-MVT (Review)/17 एवं 18 दिनांक 04.05.2016 द्वारा उठायी गयी आपत्तियों से उजागर हुआ। जिला स्तर पर इस संबंध में बेतिया थाना कांड सं०-235/16 दिनांक 11.05.2016 दर्ज हुआ। इस क्रम में परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1545 दिनांक 27.03.2017 द्वारा आरोप, प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराते हुए अग्रेतर कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। इसके उपरांत विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप, प्रपत्र 'क' की प्रति संलग्न करते हुए पत्रांक-7781 दिनांक 28.06.2017 के माध्यम से श्री भगत से स्पष्टीकरण माँगा गया जिसके अनुपालन में उनका स्पष्टीकरण (पत्रांक-शून्य दिनांक 22.08.2017) प्राप्त हुआ। विभागीय स्तर पर समीक्षा के उपरांत राजस्व क्षति के इस मामले के वृहद जाँच की आवश्यकता पायी गयी।

2.अतएव यह निर्णय लिया जाता है कि श्री भगत के विरुद्ध अनुलग्न अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों की वृहद जाँच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 (2) के तहत करायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा नामित पदाधिकारी होंगे।

3. श्री भगत से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 129-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>